


## Wall Magazines



**रीवेन्ट्रनाथ टीगोर सदन**

**योगा का महत्व**  
**HAPPY INTERNATIONAL YOGA DAY**

Made by - Megha Singh Bhandari  
B.Sc. B.Ed - 1<sup>st</sup> year

**Yoga is a light, which once lit will never dim.**

**तन-मन को स्वस्थ रखेंगी ये मुद्राएं**

**अधिक उम्र में नियोग रखते हैं ये योग**

**Yoga is an art. Through this complex diseases can be overcome and a healthy life can be lived.**

**Yoga is all about creating a balance in your life....**

**Each season a day keeps the illness away.**



## TEACHERS TRAINING COLLEGE G.G.C. (RAJ.)

### Rajasthan Mission - 2030

राजस्थान मिशन 2030

mission2030.rajasthan.gov.in

Name - Meenakshi Sharma  
Class - B.Ed. 5<sup>th</sup> Year  
Ravindra Nath Tagore

organized this function in college

महिला सशक्तिकरण

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन

\* Key Activities of this Mission :-

- Intensive Stakeholder Consultations at departmental levels.
- Student engagement through essay competitions.
- Video Contests to foster creative public involvement.
- Strategic interactions by the chief minister with influential stakeholders.

Announcement of this Mission on 22/08/23

देश में वैज्ञानिकी की दर - 5 फीसदी

महिला	20%
महाराष्ट्र	18%
मिस्र	24%
माल्टी	30%
प्राइवेट	74%
सरकारी	11.3%
सरकारी संस्थाएँ	11%

\* Aims of this mission \*

Rajasthan Social Security, Education, Medicine, Health, Information, Technology, Women Empowerment, Employment, Economic Development, Infrastructure Development, Culture Etc.